

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 663]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2021 — पौष 10, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-88/2021/वाक/पांच (85).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 से, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्वधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ.क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	प्रावधान/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसे पंजीकृत व्यवसाई जिसके वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की सकल विक्रय राशि रु 50 लाख से कम है।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) तथा, नियम 20(2)(क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण दिनांक 31-03-2022 तक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसे पंजीकृत व्यवसाई जिसके वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की सकल विक्रय राशि रु 50 लाख से अधिक एवं 2.5 करोड़ से	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) तथा, नियम 20(2)(क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति दिनांक

	कम है।			31-03-2022 तक वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है।
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) की अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसे पंजीकृत व्यवसाई जिसके वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की सकल विक्रय राशि रु 2.5 करोड़ या अधिक है।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड(ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप-50 में आडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31-03-2022 तक प्रस्तुत कर देता है।
4.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यवसाई जो अनुसूची-दो के भाग-तीन के सरल क्रमांक 1, 2 एवं 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यवसाई से करते हैं।	वित्तीय वर्ष 2017-18	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड(ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष दिनांक 31-03-2022 तक प्रस्तुत कर देता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2021

क्रमांक एफ 10-88/2021/वाक/पांच (85).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-88/2021/वाक/पांच(85) दिनांक 31-12-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2021

NOTIFICATION

No. F 10-88/2021/CT/V (85).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005 (No.2 of 2005) the State Government hereby exempts, the class of Dealer as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the act and rules as specified in column (4), subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the said Schedule, namely :

No.	Class of dealer	Year	Section/Rule from which exemption is granted	Restriction and Conditions
1	2	3	4	5
1	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose turnover in first quarter of year 2017-18 is less than Rs.50 lakhs except dealer who deals in goods specified in S.No.1, 2 and 5 of Part III of Schedule-II	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a) and sub section (2) of Section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause (b) of Sub section (1) of section 19 and filed such form before the Commercial Tax Officer up to 31/03/2022.
2	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose turnover in first quarter of year 2017-18 is more than 50 lakhs and less than Rs.2.5 Cr. except dealer who deals in goods specified in S.No.1,2 and 5 of Part III of Schedule-II	Financial Year 2017-18	Clause (i) and (ii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a) and sub section (2) of Section 41.	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause(b) of Sub section (1) of section 19 and file such form-18 up to 31/03/2022 along with audit report required under section 44(AB) of Income tax Act 1961 before the Commercial Tax Officer.
3	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, whose turnover in first quarter of year 2017-18 is Rs.2.5 Cr. or more, except dealer who deals in goods specified in S.No.1, 2 and 5 of Part III of Schedule-II.	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a).	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause(b) of Sub section (1) of section 19 and file such form up to 31/03/2022 along with audit report required under section 44(AB) of Income tax Act 1961 and a copy of audit report in Form-50 as specified in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 before the Commercial Tax Officer.
4	Registered dealers under the Chhattisgarh Value Added Tax Act 2005, who purchased goods specified in S.No.1, 2 and 5 of Part III of Schedule-II from Registered dealer under CG VAT Act 2005	Financial Year 2017-18	Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of section 21 and Rule 20(2)(a) and sub section (2) of Section 41. .	When the dealer specified in column (2) has paid the tax payable with interest, if any, according to Form-18 prescribed in clause(b) of Sub section (1) of section 19 and file such form up to 31/03/2022 along with audit report required under section 44(AB) of Income tax Act 1961 before the Commercial Tax Officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.